

Regd. No. : 715(U)

Estb. : 1985

To / सेवा में,

Bhartiya Karya Karta Co-op. T&C Society Ltd.

Head Off. : F-20 KIRTI NAGAR, (BACK SIDE), NEW DELHI-110015, Ph : 47013354, 9312233631

Branch Off. : 104, MULTITECH TOWER, LSC-10, SECTOR-16, ROHINI, N.D.-110085

भारतीय कार्यकर्ता सहकारी साख एवम ऋण समिति लि.

मुख्य कार्यालय : एफ-20, बेसमेन्ट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015

शाखा कार्यालय : 104, मल्टीटेक टॉवर, एल.एस.सी.-10, सैक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली-110085

2 PHOTO
PASSPORT
SIZE

कीर्ति नगर, रोहिणी
रविवार अवकाश

Sub. : Application for Membership
विषय : समिति की सदस्यता हेतु आवेदन पत्र

Dear Sir,

I shall be glad if you please enrol me as a member of your Society, I have carefully read the bye-laws and rules of the Society, and hereby agree to abide by them, or any modifications made therein from time to time. I further declare that I am not member of any other Co-operative Society dispensing credit.

1. Name
2. Father's/Husband Name
3. Date of Birth 4. Age
5. Edu. Qualification
6. Permanent Add. 7. Correspondence. Add.
-
-
-
8. Ph. 9. Mobile No.
10. Occupation 11. Pan Card No
12. P.F. No.
13. Office Address
-
14. Monthly Income 15. Income Tax Payee Yes/No

Signature

Signature of Member

Name :

Name of Nominee : Relation

.....

Signature of Member :

Name :

Admission Fee : Rs. 500/-

Share Money : Rs. 500/-

Monthly Membership (C.D.) Rs. 200/- P.M.

घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी

एतत् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता हूं कि मैं अन्य किसी सहकारी ऋणदात्री समिति का सदस्य नहीं हूं तथा समिति के व्यवसाय से मिलता-जुलता कोई कार्य नहीं करता/करती हूं तथा उपरोक्त आवेदन में मैंने समस्त सूचनाएं सत्यतापूर्वक दी हैं एवं कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं संस्था का सदस्य बनने पर उसके समस्त नियमों का पालन करते हुए संस्था के उत्थान में सहयोग करूंगा तथा किसी भी दशा में तीनवर्ष से पहले सदस्यता समाप्ति के लिए आवेदन नहीं दूंगा। सोसायटी के नियमों/उपनियमों में समय-समय पर जो भी परिवर्तन होंगे उनका पूरी सत्यनिष्ठा से पालन करूंगा यदि भविष्य में मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई कोई सूचना गलत पायी जाती है या मेरा कोई आचरण संस्था के नियमों की अवहेलना करता है अथवा संस्था के व्यवसाय एवं इसकी ख्याति पर विपरीत असर डालता है तो मेरे खिलाफ संस्था की कार्यकारिणी द्वारा लिया गया कोई भी फैसला मुझे मंजूर होगा।

हस्ताक्षर सदस्य

परिचय

मैं आवेदक श्री/कुमारी/कु0 को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं इन्होंने आवेदन पत्र पर मेरे सामने हस्ताक्षर किये हैं और मेरे विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सोसायटी की सदस्यता प्राप्त करने के योग्य हैं।

नाम सदस्य संख्या हस्ताक्षर (परिचय कर्ता)

- संलग्न : 1. चुनाव पहचान पत्र/डाइविंग लाइसेंस की स्वयं सत्यापित फोटो कापी
2. बिजली/पानी/टेलीफोन बिल की स्वयं सत्यापित फोटो कापी
3. फोटो सहित भरा एवं हस्ताक्षर युक्त पहचान पत्र
4. आय एवं व्यवसाय का प्रमाण

कार्यालय के उपयोग के लिए

दिनांक को रु. रसीद संख्या द्वारा प्राप्त किए।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

आज दिनांक को सम्पन्न हुई कार्यकारिणी समिति की सभा में पारित प्रस्तावानुसार सदस्यता स्वीकृत की जाती है एवं आवंटित शेयर आवंटित किए जाते हैं। उपरोक्त नाम का सदस्य रजिस्टर में क्रम संख्या पर अंकित कर दिया जाए।

(सी.ई.ओ.)

(अध्यक्ष)

(सचिव)

Date :

**The Hony. Secretary,
Bhartiya Karyakartta Co-op. Thrift &
Credit Society Ltd.**

Dear Sir,

With reference to your letter dated
I hereby undertake that in the event of the Society accepting my
resignation from primary membership, I make myself jointly and
severally liable to the Society for the due payment of loan with
interest in accordance with the Delhi Co-operative Societies Act,
Rules and Bye-laws of the Society of the Member(s) against whose
loan I happen to stand as one of the sureties.

Yours faithfully,

Full Signature

Full Name

Father's Name

Branch

Resi. Address :

Tel. (R)

Bhartiya Karya Karta Co-op. T&C Society Ltd.

Head Off. : F-20 KIRTI NAGAR, (BACK SIDE), NEW DELHI-110015, Ph : 47013354, 9312233631
Branch Off. : 104, 1st FLOOR, MULTITECH TOWER, LSC-10, SECTOR-16, ROHINI, N.D.-110085

Applicant Recent
Photo with
Signature across
Photo

KYC INFORMATION FORM (FOR MEMBER'S)

Branch															
Account No.															

Name																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Resi. Address: Office Address:

.....
.....

Pin																			
Pin																			

Tel. No.																			
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mob. No.																			
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DD	MM	YYYY

E-Mail															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date of Birth

PAN No.																			
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Please attach photocopy of anyone of the following documents as proof of Identity and address of residence in NCT of Delhi.

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| A). Passport | E). Aadhar Card (UIDAI) |
| B). Voter's Identity Card | F). Bank Passbook |
| C). Driving License | G). Electricity Bill (latest) |
| D). PAN Card | H). Telephone Bill (latest) |

* In case the member is working in Delhi but not residing in Delhi, please attach photocopy of the Identity Card as proof of Service.

* For Member having business in Delhi but not residing in Delhi, please attach proof of Registration of Business in Delhi.

(ALL DOCUMENTS TO BE SELF ATTESTED BY THE ACCOUNT HOLDER)

ORIGINAL DOCUMENTS TO BE SHOWN DURING SUBMISSION

Date:

Signature:

FOR OFFICE USE ONLY

KYC Category

--

Signature of Authorized officer

Name:

Code No. :

Signature of Authorized Officer

Name:

Code No. :